

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 2024—कार्तिक 21, शक 1946

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2024 ( कार्तिक 21, 1946 )

क्र. 16915-मप्रविस-16-विधान-2024.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा, इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

भोपाल :  
दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

मंगुभाई पटेल  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.